



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 माघ 1935 (श0)
(सं0 पटना 107) पटना, वृहस्पतिवार, 23 जनवरी 2014

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचनाएं
21 जनवरी 2014

सं0 सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-01/2013-45—बिहार-राज्यपाल का दिनांक 20.01.2014 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा० डी० वाई० पाटील, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान-सभा को दिनांक 14 फरवरी, 2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान-सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

कैम्प-मुम्बई
दिनांक 20 जनवरी, 2014.

डा० डी० वाई० पाटील
राज्यपाल, बिहार।”

बृज राज राय,
सरकार के उप-सचिव।

21 जनवरी 2014

सं0 सं0का0-1/वि0मं0(सत्र)01-01/2013-46/अधिसूचना संख्या 45 दिनांक 21.01.2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के उप-सचिव।

The 21st January 2014

No. P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2013-45—The following order of the Governor of Bihar dated the 20th January, 2014 is hereby published for general information:-

“In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Dr. D. Y. Patil, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 A.M. on the 14th February, 2014 in the Assembly Chamber, Patna.

**Camp-Mumbai
Dated 20th January, 2014.**

**Dr. D. Y. Patil
Governor of Bihar.”**

**Brij Raj Rai,
Deputy Secretary to Government.**

**भारत के संविधान के अधीन गठित पंचदश बिहार विधान-सभा के
द्वादश-सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम**

फरवरी 2014

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2014

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद-176(1) के अधीन 11.30 बजे पूर्वाह्न बिहार विधान-सभा वेश्म में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण।
3. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
4. आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण।
5. शोक प्रकाश (यदि हो)।

शनिवार, दिनांक 15 फरवरी, 2014

रविवार, दिनांक 16 फरवरी, 2014

}

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2014

1. वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन।
2. वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन।
3. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी, 2014

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।

बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014

वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

वृहस्पतिवार, दिनांक 20 फरवरी, 2014

लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

शनिवार, दिनांक 22 फरवरी, 2014

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 107-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>